



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 371) पटना, वृहस्पतिवार, 10 अप्रील 2014

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

7 अप्रील 2014

सं0 01/नि0(विविध)-194/2013-2149—दी रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट, 1950 की धारा-38 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-4609 दिनांक 12.10.1999 द्वारा अधिसूचना की तिथि 12.10.1999 से चार वर्षों के लिए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को अधिक्रांत किया गया था। पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या-6732 दिनांक 31.12.2013 द्वारा अधिक्रमण अवधि को दिनांक 12.10.2003 से दिनांक 31.03.2014 तक के लिए विस्तारित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासक की सम्यक् रूप से नियुक्ति कर निगम के कार्यों का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि निगम को अधिक्रांत स्थिति में रखा जाना अत्यावश्यक है;

और, चूंकि अधिक्रमण अवधि का विस्तार दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक के लिए किया जाना आवश्यक है;

अतः दी रोड ट्रान्सपोर्ट एक्ट, 1950 की धारा-38(1)-सह-पठित धारा-38(3)(a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिक्रमण अवधि को दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आर० के० महाजन,

प्रधान सचिव।

The 7th April 2014

No. 01/Ni.(Vividh)-194/2013-2149—In exercise of the powers conferred by Section-38(1) of The Road Transport Act, 1950, State Government had superseded the Bihar State Road Transport Corporation vide Notification No.4609 dated 12-10-1999 for four years from the date of Notification i.e. from 12.10.1999 with prior approval of the Central Government. Again the supersession period of the Corporation has been extended from dated 12.10.2003 to dated 31.03.2014 vide department's Notification No-6732 dated 31.12.2013.

Affairs of the Corporation are being conducted by the Administrator duly appointed by the State Government. The State Government is satisfied that it is necessary to keep the corporation in superseded stage.

And whereas, it is necessary to extend the supersession period from 01.04.2014 to 31.03.2015.

So, in exercise of the powers conferred by section 38(1) read with section 38(3) (a) of The Road Transport Act, 1950, the supersession period of the Bihar State Road Transport Corporation is being extended from the date 01.04.2014 to 31.03.2015.

By order of the Governor of Bihar,

R. K. MAHAJAN,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 371-571+50-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>